

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †3155

सोमवार, 20 मार्च, 2023/29 फाल्गुन, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

तेलंगाना में नई पर्यटन परियोजनाएं

†3155. श्री बी.बी. पाटील:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का तेलंगाना में कोई नई पर्यटन परियोजना आरम्भ करने का विचार है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या तेलंगाना में इन पर्यटन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए क्षेत्रों की पहचान की गई है; और
- (घ) यदि हां, तो अब तक आबंटित और जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (घ): पर्यटन स्थलों का विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने तेलंगाना राज्य में पर्यटन संबंधी अवसंरचना विकास के लिए 'स्वदेश दर्शन, राष्ट्रीय तीर्थयात्रा जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की है।

तेलंगाना राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं और आबंटित निधियों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक और गंतव्य केंद्रित दृष्टिकोण अपनाते हुए टिकाऊ और जिम्मेदार गंतव्यों को विकसित करने के उद्देश्य से अपनी स्वदेश दर्शन योजना को अब स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0) के रूप में परिवर्तित किया है। एसडी 2.0 के तहत, तेलंगाना राज्य में विकास के लिए भौगोलिक चिन्हित किया गया है।

पर्यटन मंत्रालय को उपर्युक्त योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार इन प्रस्तावों की जांच की जाती है और निर्दिष्ट प्रावधानों की पूर्ति और निधियों की उपलब्धता की शर्त पर परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

तेलंगाना में नई पर्यटन परियोजनाएं के संबंध में दिनांक 20.03.2023 के लोकसभा के अतारांकित प्रश्न सं. †3155 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में विवरण ।

स्वदेश दर्शन योजना

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	परिपथ/ स्वीकृति वर्ष	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1.	तेलंगाना	इको परिपथ 2015-16	महबूबनगर जिले में इको टूरिज्म परिपथ का विकास	91.62	87.04
2.	तेलंगाना	जनजातीय परिपथ 2016-17	मुलुगु-लकनावरम-मेदावरम-तडवई-दमरावी-मल्लूर-बोगाथा जलप्रपात का विकास	79.87	79.87
3.	तेलंगाना	विरासत परिपथ 2017-18	कुतुबशाही हेरिटेज पार्क - पैगाह मकबरा- हयात बखशी मस्जिद- रेमंड के मकबरे का विकास	96.90	70.61

प्रसाद योजना

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	अनुमोदित लागत	निर्मुक्त राशि
1.	तेलंगाना	जोगुलम्बा देवी मंदिर, आलमपुर का विकास	2020-21	36.73	13.76
2.		भद्राचलम, भद्राद्री कोठागुडेम जिले में तीर्थयात्रा अवसंरचना का विकास	2022- 23	41.38	22.12.22 को प्रशासनिक स्वीकृति
3.		रुद्रेश्वर (रामप्पा) मंदिर, मुलुगु में तीर्थयात्रा और विरासत पर्यटन अवसंरचना का विकास	2022- 23	62.00	22.12.22 को प्रशासनिक स्वीकृति

पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केन्द्रीय एजेंसियों को सहायता योजना

(करोड़ रु. में)

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	केंद्रीय एजेंसी	स्वीकृत राशि	निर्मुक्त राशि
1.	तेलंगाना	हैदराबाद रेलवे स्टेशन का संयुक्त विकास	2016-17	रेल मंत्रालय	4.41	3.52
2.	तेलंगाना	संजीवैया पार्क, हैदराबाद, तेलंगाना में वाटर स्क्रीन और म्यूजिकल फाउंटेन सहित मल्टीमीडिया लेजर शो	2022-23	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल)	49.65	4.90
3.	तेलंगाना	उस्मानिया कला विश्वविद्यालय, हैदराबाद तेलंगाना में डिजिटल मल्टीमीडिया प्रौद्योगिकी और प्रकाश व्यवस्था के डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और संचालन	2022-23	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल)	11.79	1.17
